SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office- 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi – 110035 Corporate Office: 7th Floor, Corporate Office Tower, Ambience Mall, N.H.48, Gurugram-122002 E-mail: <u>info@sainik.org</u> Website: <u>www.sainikfinance.com</u> CIN: L26912DL1991PLC045449 Telephone No.-011-28315036/0124-2719000 Fax No.-011-28315044/0124-2719100

Dated- 2nd September, 2025

To, The Manager (Listing) **BSE Limited** Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001.

Sub.: Confirmation w.r.t. completion of sending of notice of 33rd Annual General Meeting (AGM) and Annual Report for the financial year 2024-25 to the shareholders of the Company and publication of Notice of AGM under regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Ref.:- Sainik Finance & Industries Limited ("the Company") Scrip Code: 530265

This is to inform you that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, Notice of 33rd Annual General Meeting of Company, which is scheduled to be held on Wednesday, 24th September, 2025 at 11:30 a.m. through Video Conferencing (VC) and Other Audio Visual Mean (OAVM) along with Annual Report of the Company for the financial year 2024-25, have been sent electronically to the members / shareholders at their registered e-mails address on 1st September, 2025.

Further we are enclosing herewith copies of newspapers cutting pertaining to publication of notice of 33rd AGM and e voting information in Newspapers i.e. Financial Express (English newspaper) and Haribhoomi (Hindi newspaper).

The Annual Report along with Notice of 33rd Annual General Meeting of the Company for the financial year 2024-25 have been uploaded on the website of the Company and available at the following weblink.

http://www.sainikfinance.com/2025/SFIL 33rd Annual Report 2025.pdf

This is for your information and record.

Thanking You,

For Sainik Finance & Industries Limited

Piyush Garg

Company Secretary& Compliance Officer M. No.: A62134

Place: Gurugram Encl. As above

FINANCIAL EXPRESS

TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office- 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi - 110035 Corporate Office: 7th Floor, Corporate Office Tower, Ambience Mall, N.H.48, Gurugram-122002

E-mail: info@sainik.org Website: www.sainikfinance.com CIN: L26912DL1991PLC045449

Telephone No. - 011-28315036/0124-2719000 Fax No. - 011-28315044/ 0124-2719100

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that:

- The 33rd Annual General Meeting (AGM") of the Sainik Finance & Industries Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 24th September, 2025 at 11:30 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the ordinary and special business, as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA General Circulars and SEBI Circulars issued by them in this regard, without the physical presence of the Members at a common venue. The Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.
- The Notice of the AGM, Annual Report for the financial year 2024-25 including Audited Annual Financial Statements for the financial year ended 31st March 2025 ("Annual Report") has been sent by e-mail on Monday, 1st September, 2025 to those Members whose email addresses were registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository") and the Company's Registrar and Transfer Agent, Indus Shareshree Private Limited (erstwhile known as Indus Portfolio Private Limited) (ISPL), in accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars. The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. On Monday, 1st September, 2025, the Company has also dispatched a letter containing web-link of Annual Report to those shareholder/ members who have not registered their email address with the Company/RTA.
- The Notice of the AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at http://www.sainikfinance.com/2025/SFIL_33rd_Annual_ Report 2025.pdf and the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of the AGM is also available on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.
- The instructions for joining the AGM and manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of AGM. Members participating through VC/OAVM shall be counted for purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act. 2013.
- 5. All members are also informed that:

Date: 1st September, 2025

Place: Gurugram

- a) the remote e-Voting shall commence on Sunday, 21st September, 2025 at 9:00 a.m. IST.
- b) the remote e-Voting shall end on Tuesday, 23rd September, 2025 at 5:00 p.m. IST. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time as the
- same shall be disabled by NSDL for voting thereafter A Person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. Friday, 19th September, 2025 may cast their vote electronically on the ordinary and special business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL").
- The facility for e-voting system shall also be available at the AGM. The members attending the AGM, who has not casted their votes through remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM. The Members' who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC / OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM.
- Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the AGM by e-mail and holding shares as on the Cut-off date i.e. 19th September, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "forgot user details/ password
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., T301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No-C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051, Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address legal.secretarial@sainikmining.com.

For Sainik Finance & Industries Limited

Sd/-

Piyush Garg

Company Secretary

TATA CAPITAL LIMITED

Branch Office: Office 902 – 906, Quantum Tower, Chinchaoli, Govindji Shroff Marg, Malad West, Mumbai – 400064

DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

1. M/S. DMJ BAGS VILLA

H.NO. AA-7S SHALIMAR, BAGH NORTH DELHI-110088, Mob No. 9999687779

2. Mr. RAHULANAND

H.NO. AA-75 SHALIMAR, BAGH NORTH DELHI-110088, Mob No. 9999687779

3. Mr. AKSHAY ANAND

H.NO. AA-75 SHALIMAR, BAGHNORTH DELHI-110088, Mob No. 9999687779

4. Mrs. MAMTA CHADHA

H.NO. AA-75 SHALIMAR, BAGHNORTH DELHI-110088, Mob No. 9999687779

5. Mr. RAJINDER KUMAR ANAND

H.NO. AA-75 SHALIMAR, BAGHNORTH DELHI-110088, Mob No. 9999687779

This is to inform that Tata Capital Ltd.(TCL) is a non-banking finance company and incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at Peninsula Business Park, Tower A, 11th Floor, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 and a branch office amongst other places at New Delhi ("Branch") That vide Orders dated 24.11.2023, the National Company Law Tribunal (NCLT) Mumbai has duly sanctioned the Scheme of Arrangement between Tata Capital Financial Services Limited ("TCFSL") and Tata Cleantech Capital Limited ("TCCL") as transferors and Tata Capital Limited ("TCL") as transferee under the provisions of Sections 230 to 232 read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("said Scheme"). In terms thereof, TCFSL and TCCL (Transferor Companies) along with its undertaking have merged with TCL, as a going concern, together with all the properties, assets, assets, rights, benefits, interest, duties, obligations, liabilities, contracts, agreements, securities etc. w.e.f. 01.01.2024. In pursuance of the said Order and the Scheme, all the facility documents executed by TCFSL and all outstanding in respect thereof stood transferred to Applicant Company and thus the TCL is entitled to claim the same from the [Borrowers/Co-Borrowers] in terms thereof

A sum of Rs.1,84,99,691/- (Rupees one crore eighty four lakh ninety nine thousand six hundred ninety one only) as on 20.08.2025 is due to the Tata Capital Ltd. (hereinafter referred as "TCL") vide Loan Account Nos. Loan Account No TCFLA0359000012947205 & TCFLA0359000012950608 & 86005431 on 30.05.2024 & 31.05.2024 & 29.09.2023 alongwith interest under the Home Equity (LAP) loan granted to you by TCL. Despite of our repeated requests, you have not paid any amount towards the amount outstanding in your account which has been classified as N P A Account on 30-07-2025 As per RBI guidelines pursuant to your default in repaying TCL's dues. Myself, exercising the powers of the Authorized Officer of the Tata Capital Ltd, in pursuance to the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 had issued a Demand Notice dated 20.08.2025 under Section 13 (2) of the aforementioned Act calling upon you to discharge the said debt amounting Rs. 1,84,99,691/- with future interests and costs within 60 days of the notice, failing which the TCL shall exercise all or any of the rights detailed under Section 13(4) of the Act including enforcement of the security interest created by you in favour of the TCL over the property described below.

SCHEDULE - A

FREE HOLD BUILT UP PROPERTY BEARING NO. AA-75 AREA MEASURING 68.75 SQ MTRS. SETUATED ENTIRE SECOND FLOOR & THIRD FLOOR WITHOUT ROOF RIGHTS SHALIMAR BAGH RESIDENTIAL SCHEME NEW DELHI-110088 MORE DESCRIBED IN SALE DEED DATED 15.11.2021 GIFT DEED FAVOR OF SHRI AKSHAY ANAND & SHRI RAJENDER KUMAR ANAND. WHICH IS BOUNDED AS UNDER: NORTH: ROAD, EAST: PLOT NO. 76, WEST: PLOT NO. 74, SOUTH: S/LANE

With a view to ensure efficacious service of the Demand Notice dated 20.08.2025 we are hereby effecting service of the said Notice vide the present publication. You are hereby called upon under Section 13(2) of the above Act to discharge the above-mentioned liability within 60 days of this notice failing which the TCL will be exercising all or any of the rights under Section 13(4) of the above Act. You are also put to notice that as per terms of Section 13(13) of the above Act, you shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets.

Place: DELHI

Tata Capital Ltd.

Date: 02.09.2025

Sd/-



SANGAL PAPERS LIMITED (CIN- L21015UP1980PLC005138) REGD. OFFICE: VILL BHAINSA, 22KM STONE, MEERUT- MAWANA ROAD, MAWANA, UP-250 401

PHONE: 01233-271515, 271137, e-mail: sangalinvestors1980@gmail.com, website: www.sangalpapers.com

NOTICE OF THE 45th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Sangal Papers Limited will be held on Friday, September 26, 2025 at 01:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") pursuant to the



दिल्ली हरिभाम 2

हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर पहुंचा 205 मीटर

राजधानी में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह

एजेंसी 🕪 नई दिल्ली

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बह रहा है और मेंगलबार शाम तक इसके 45 (ह) है जोर नगरावार सान पेन्ट्र इसपा 206 मीटर के स्तर तक पहुँचने का अनुमान है, जिसके मद्देनजर प्राधिकारियों ने बाद क्षेत्र में रहने चाले लोगों को सुरक्षित स्थानों को ओर जाने की सलाह दी है। हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण सोमवार अपराह्न 12 छोड़े जाँने के कारण सोमवार अपराहन 12 बजे पुराने रेलवे पुल (ओआसबी) पर सपुना का जलतर 205 मीटर कर पहुंच यया। दिल्ली के लिए चंतावनी का निशान 205.33 मीटर है औं जलसर 206 मीटर पहुंचने पर लोगों को सुरवित स्थानी पर पहुंचाना शुरू कर दिव्हा जाता है। दिल्ली के छह जिलों के निचले हलाकों में लगभग 15,000 लोग सहा के व्यक्ति लगभग 5,000 लोग सहा के प्रवाह और संभावित बाद के खतरी पर नवर रखने के लिए एक बाद के खतरी पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है। वहां जारी बाद चेतावनी में कहा मया है कि चूंकि ओआरबी में जल स्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और 206.50 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है, इसलिए सभी अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में



निगरानी रखें और संवेदनशील स्थानी पर आवश्यक कार्रवार्ड करें। इसमें कहा गया आवश्यक कारवाद कर इसम कहा गया है, नदी के तद्यों के भीतर एका वाले लोगों को आगाड किया जाना चाहिए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की क्याबस्था की जाने चाहिए। इसमें चेतावनों दो गई है कि हिम्तीकुंड बैराज से लोड़े जा रहे पानी की पात्रा और ऊपरी जलाझण क्षेत्र में भारी वर्षा को देखते हुए यह सूचित किया जाता है कि दो सितंबर को शाम पांच से आठ बजे के बीच दिल्ली रेलवे ब्रिज पर जल स्तर 206 मीटर को पार कर सकत

अनुसार, बाद की चेतावनी जारी होने के जनुस्तर, बार्ड जा पर्धायना जाय हान क समय हथिनीकुंड बैराज से सुबह नौ बजे 3,29,313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि वजीराबाद बैराज से लगभग जबाक वजाराबाद बराज स लगभग 38,900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली के संपागीय आयुक्त नीरज संसवाल ने कहा कि अयले कुछ दिनों में बैराजों से तीन लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की उम्मीद है। उन्होंने संबाददाताओं से कहा कि हमने संबंधित क्षेत्री जिलाधिकारियों को जरूरी नैयारियों के

बारे में सूचित कर दिया है। हमने उन्हें भोजन, बिजली और राहत शिविरों से जुड़ी तैयारियों के बारे में सूचित कर दिया है। जिलाधिकारियों द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। संमवाल ने कहा कि उन्हें जा रहा है। समझाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नदी का जलस्तर 206 मीटर के पार कर जाएमा तथा उसके बाद पानी कम होना शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अगर जलस्तर और बढ़ता है तो हम तैयार हैं। हम ओखला बैराज से पानी के बहाव पर नजर रख रहे हैं। अगर पानी बहता रहा, तो

कोई खतरा नहीं, बाह सिर्फ इब क्षेत्रों तक सीमित रहेगी : सीएम

सीजित रहेवी : सीएवा
वर्ष विल्ता । विवर्ध कुछ बैन्स ने बे
लाव । हमार प्रमुक्त का को को
लाव । हमार प्रमुक्त का को को
नाम के अपने का को को
भागित कार को के को का
भागित कार के के को
भागित कार के के
भागित कार के
भागित का का
भागित कार कर के
भागित कार के
भागित का कार के
भागित का कार के
भागित कार कर के
भागित का कार का
भागित का का
भागित का का
भागित का
भागि

झमाझम बारिश बढा सकती है दिल्ली वालों की परेशानियां!



हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

दिल्ली की दल्लीज पर उपन रही यमुना नदी के चलते राजधानी में बाढ़ अमुना नदी के चलते राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लगातार हो रही व्यक्ति ने राजधाना वालना न मध्ये पर चिंता की लकीरे उकेरती शुरू कर दी है। सोमवार दोपहर से शुरू हुई कर दी वासों की वारिश और मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सच हुई तो फिर दिल्ली में बाइ की संभावना बहुत न्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में यमुना किनारे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगी के लिए उफनती यमुना और झमझम हो रही बारिशा नई नई परेशानियों का सबब बनेगी। क्वींक दिल्लों में जुलाई व अगस्त के महीनों में बारिश जमकर हुई, और अधिकांश समय राजधानी जलमम्म होती रही। अब यमुना अपनी सीमाएं तोडकर दिल्ली में घुसती नजर आ रही है, और झमाझम वारिश का पानी दोनो मिलकर राजधानी में बाढ़

जैसे हालात बन रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार बेशक नाले नालियों को साफ करने से लेकर आन्य उपाय करने के करने स लंकर अन्य उपाय करन के दावे करती रहें लंकिन गत दो सहीरों अनेक ऐसे मौके आए जब दिल्ली बरसात के पानी में ही डूबती रही। जाहिर है एक तरफ यमुना पूरे उफान पर क्षेत्रे के चलते नाले गालियों व सीवर का पानी वापस बैक मारेगा जिससे दिल्ली में बाद से हालात खराब होने से इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ प्रादेशिक मौसम विभाग की अगले तीन चार दिन दिल्ली में हल्की वारिश की संभावना ने चिंताएं वहा दी है। सितंबर के पहले दिन वानी सोमवार को दिल्ली में सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक सफदरजंग वेधशाला ने 18.6 मिमी बारिश दर्ज की। जबकि सबसे अधिक पानी नजफगढ में 49.5 मिमी बरसा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आया नगर में 40 मिमी, बारिश दर्ज की गई।

जिम मालिक पर हमला करने के बाद फरार फिटनेस ट्रेनर पुडुचेरी से पकड़ा

फिटलोस दुंजर पुडुचेरी से पाकड़ .

बह दिल्ली दिल्ली में एक के निर्माण पर समान करने और संसीटीने नह दिल्ला कर करने के उत्तरोग में उत्तर के निरम्भण के साहत कर करने के उत्तरोग में उत्तर को प्राचन के प्रचन के प्राचन के प्राचन के प्राचन के प्रचन के प्राचन के प्राचन के प्रचन के प्राचन के प्रचन के प्रच में बर्ज हत्या का मामला भी शामिल है।

शिक्षा केवल जान देने का माध्यम नहीं, राष्ट्र निर्माण का साधन भी है : महासंघ

कह विकास आप द्यादिया जा है : जीई सिर्ध बहुँ विकास विकास के उस मह कि जा का अपने हैं , खेल्क यह दिन्हें कि लोग, बानादिका हिम्मां के उस मह कि जा का अपने के का कि विकास के कि उसने का सकत जो हैं। उसिंदान करतीय राष्ट्रीय विक्रिक महत्वय एसी उपरास्त्रका कुरार सीन्द्रका अपने हैं कि यह पाता कर के अफिक स्कूरणों में "हमाज विकास कुरार सीन्द्रका के पुरे होंने यह पाता कर के अफिक स्कूरणों में "हमाज विकास करने का प्रतिकृत करने सुर यह जावतारी की अपने करने कि कि उसार विकास करने कि अपने कि करने हुए यह जावतारी की अपने के की कि "हमाज विकास करने क्यान क्षानिक्ष करी सुर यह जावतारी की अपने के की हमाज विकास करने कि अपने कि अपने कि अपने के अपने की अपने की हमाज विकास करने कि अपने कि अपने की अपने की अपने की अपने की हम इस कार्यक्रम में बेहम से लाओं का और राख्यें कि अपने की अपने की हम इस कार्यक्रम में बेहम से लाओं का और राख्यें की अपने की प्रतास की प्रतास की प्रतास की अपने कि अपने की अपन

दिल्ली नगर निगम के 243 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त

गई बिल्ली। बिल्ली गंगर विगम के 243 कर्मवारी सेव विवृत्ते हुए। बिल्ली गंगर विगम के सिर्विक सेवर मुख्यक्षप दिवार समागर में आगीवन कार्यक्रम में स्वितिकृत कमियों को प्रतिस्त पत्र पीयीओं हो... तीव एमक्टिशमेंट के रोक विशे गंगर सभी जीना में भी स्वाविद्यार कार्यक्रम आयोजिन किए गंगर (विराम प्रशासन गंगर सभी जीना में भी स्वाविद्यार कार्यक्रम आयोजिन किए गंगर (विराम प्रशासन नार तथा जाना में में दार्चाकार में ती हुए यहां कि इस कार्यक्रम में स्वाविक्त ने सीमार की गई जानकारों में ती हुए यहां कि इस कार्यक्रम में स्वविक्त करियों को दौर्यायु और रसस्य रहने को कामन की गई। सेराविक्त हो रहे करियों को उनके मेंक्स के लिए शुक्राक्रमानाओं के साथ नाय सुरक्तमा वीव को कामन करने पूर्व पोठी में में की की हो ने अवसर पर निजन के उद्या अधिकारों में उपस्थात रहीं।

एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया 'बदरिया' कार्यकम

बदिरिया कार्यक्रम बह बिह्मी वर्ष हे बहुन्ह बारिय के नार्म में जो रही बहु बिहुनी। वर्ष हे बहुन्ह बारिय के उपन के उन्हां बहुन्हों के अनुसारी के मार को उपन किया है। बहुन्हों के क्रांत्र के अपन के नोम्माय के बिहुन्हों के क्रांत्र के अपन के नोम्माय के बहुन्हों के अपने के अपने के बहुन्हों के किया के अपने के बीराव पर क्रांत्रका किया कही कहा कि किया कर की पर क्रांत्रका किया कही कहा कि कार्यका के अपने के बार के अपने किया के अपने के अपने के अपने के बार के अपने के अपने के अपने के अपने के बार क्रांत्रका के अपने के अपने के अपने के बार के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के बार के बार के अपने के अपने के अपने के अपने के बार के बार बार बार के बार के अपने के तरित कर अध्यता से कार्यक्रम की राज्यक करवाया। संश्रांत, संस्कृति और सङ्ग्रांव से सजी इस भव्य शाम में वर्ष ऋतु की आसिटी फुडर का सङ्ग्री बर्मी मुख्याची रेखा शुप्ता और उनके सथ बिल्ली सरकार में संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा संस्व यंग्रेब वर्षातिक पर्व बासूची स्टारात एकडीव्यक्ती के उपारम्भ कुलन्ति पहल, एकडीप्साची करहरा वरिता तीमर, सादीय मीडिया सह प्रात्ती संत्रम मधून, प्रवेश महामानी विष्णु नित्ति, विद्यायक उपाय कर्ण और अम्लिए शर्मा, मन्त्रपा सेता राजीव व्यक्तर और पूर्व महापीर जनप्रकाश जेपी, पूर्वाकल मोर्चा अस्पन्न सर्वेष अंद्रमा महित अन्य प्रकाशिकरी और सैकड़ी को अञ्च में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

फर्जी ऑनलाइन मुगतान के जरिए आमूषण विक्रेताओं को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

दिल्ली के रोडिणी में आभूषण खरीदार बनकर फर्जी तरीके से ऑनलाइन लेनदेन के 'स्क्रीनशॉट' के जरिए आभूषण विक्रेताओं को उसने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपियों की पहचान सुरेश (44), साहित्स (20) और हर्ष दिहेवा (22) के रूप

हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले ारत्या नगरानगम कावकाराया म पदन वाल बच्चे देश का भिल्पा हैं। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ और सुरक्षित बाताबरण तथा सभी मुलधृत सुविधाएं मिलना उनकी बुनिवादी हक है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम

जुननाका राजा है। हमारी जिन्माका है कि हम उन्हें सर्वोत्तम माहौल प्रदान करें। दिल्ली नगर निगम शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने सोमबार को नरेला जोन और शाहदरा जोन के विभिन्न नगर निगम विद्यालयों का औचक निरीक्षण के बाद

मीज़िया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि



अवस्त को वह मामला उस समय प्रकाश में आया जब तीन लोग क्राला स्थित एलके ज्वेल्स पहुंचे और दकान मालिक की रुपये अंतरित की फर्जी ऑनलाइन रसीद

निगम विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

मिलना विद्यार्थियों का बुनियादी हक

औचक निरीक्षण के बाद प्रशासन ने विद्यालयों को यमाया नोटिस

और 3(5) (सभी आरोपी वरावर के जिम्मेदार) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल कर आरोपियों की पहचान की गई तथा बाद में उनके विकानों पर छापेमारी के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान तीनों ने अपनी सॉलप्तता स्वीकार कर ली और अपनी साजिशों के तरीकों का को भुगतान करने वाले फर्जी रसींद दिखाते थे। पुलिस ने उनके पास से चांदी की दो जोड़ी पायल, चांदी की एक चेन, सीने की एक जोड़ी बालियां और चांदी के लगभग 100 ब्राम अन्य आभूषण बरामद किए। पुलिस ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और भगतान के फर्जी स्क्रीनशॉट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं।

दिल्ली में मंदिर के दानपात्र से नकदी चुराने के आरोप में दो लोग अरेस्ट

नाई दिल्ली। दिल्ली पुलिस से दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के रूप्य विवेत्रताव स्थित एक मंदिर के बाजदान से वाकारी दुराने के आरोप में वो तोगी को गिरपतार किया है। एक

बच्चों की बैठने को सुविधा तथा भवन रख-रखाव से संबंधित कमियां पाई गई। मामले में अपनी र्रोलिप्तता का भी खुलाश किया, जिसकी पुष्टि की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रा सम्मान समारोह 'स्वयंसिद्धा' संपन्न

डीयू विद्यार्थियों को जल्द देंगे मेट्रो पास : रेखा गुप्ता

कार्रवार्ड की जाएगी। हम चाहते हैं कि निगम

विद्यालय निजी विद्यालयों की तरह उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत करें। वहीं, औचक

निरीक्षण के बाद विद्यालय प्रमुखों/ प्राचार्यों को करण बताओ नेटिस थमाया गया और निर्धारित अवधिमें उसका जवाब देने को कहा

गया है। वहीं, विद्यालय सूत्री ने बताया कि जरूरी सुविधाओं को दुरूरत करने के लिए फंड की कई बार मांग की गई है लेकिन फंड

नहीं होने से सुविधाएं भी बदहाल है। निरीक्षण के दौरान कुछ विद्यालयों में शौचालयों को

सफाई, पेबजल की व्यवस्था, कक्षाओं मे

हरिमूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

दिल्ली की ये सरकार दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के कल्याण के लिए हर संभव कार्य करेगी और जल्द ही विद्यार्थियों को दिल्लों मेट्रो का रियायती पास भी उपलब्ध करवाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) समर्थित दिल्ली विश्वविद्यालय छा: (इस्) द्वारा सोमवार को आयोजित छात्रा सम्मान समारोह 'स्वयंसिद्धा' में

हात्रा सम्मान समाराह स्वयासहा म बतौर मुख्य अतिथि पहुँचो दिल्ली की मुख्यमंत्री रखा गुता ने मच से विहायियों को संबोधित करते हुए यह आश्वसन दिया। उन्होंने कहा कि आज इस स्वयसिद्धा के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मझे अपने कॉलेज के दिन बाद आ रहे हैं. जहां से मैंने एक सामान्य छात्र की तरह अपने जीवन की शुरुआत की थी और यहां आज दिल्लों की मुख्यमंत्री तक पहुंची हूं। यह बहुत ही सहज लगता है, सामान्य लगता है, एवीवीपी की परवृरिश् लगती है। जो कठिन से कठिन सस्तों को



सहज बनातीं है। मैंने कहीं से कोई मैनेजमेंट कोर्स या कोई डिग्री नहीं ली मैंने जो कुछ भी किया वो इस विद्यार्थी परिषद को देन है। मुझे आज जो कुछ विजन मिला है वो एबीबोपी को देन है। वहाँ, एबीवीपी की अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख मन्नू कटारिया, राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल और हुम् की सचिव मित्रविंदा कर्णवाल ने भी संबंधित किया। देशमवित की ज्वाला जलाने का काम भी एबीवीपी ने ही किया

मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि मेरे अंदर सर्वप्रथम देशभक्ति की ज्वाला जलाने का काम भी विद्यार्थी परिषद ने ही किया। का जाम ना पिकाया परिषद न हा तहेंया मैं देश के लिए किस प्रकार योगदान दे सकूं यह भी सीख मुझे विद्यार्थी परिषद ने ही दिया। मैं एबीवीपी और एबीवीपी जिन्होंने वह 'स्वयंसिदा' कार्यक्रम आयोजित किया और इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं को सम्मानित किया, यह आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं यह एक प्रेरणा है, जिससे हर एक छात्रा को प्रेरणा मिलेगी।

५०० छात्राओं को किया सम्मानित

बता दें कि सोमवार दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित इस समारोह विश्वावद्यालय में आयोजन इस समाग्राह का शुमार्थ मुख्त आणि ये खा मुख्ता एवं विशिष्ट अतिथि एवीचीपी की अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख मन्त्र शमां कदारिया, राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल, इसु के उपाध्यक्ष धानु प्रवाप सिंह एवं छात्रसंग्ध सचिव मित्रविंदा कर्णवाल ने साथ में दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर खेल, अकादमिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 500 छात्राओं को दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 84 BNSS देखिए)

भिराश 84 BNS देखिए)
भेरे लगत परिवाद किया गया है कि अभिदृत्य भीगू पुत्र शकेश गिशाली
का, आनंदापुत्र स्थान, कराता गांव, प्रेम नगर, विल्ली में केस एफआईआर
मं. 16/2021 दिनांक 0701.2021 अन्तर्गत बारा 25/64/58
आमर्च एकट, बाना ग्रेम नगर, दिल्ली के अतीन राज्यीत अस्वका किया है
या संदेड है कि उससे विका है) और एक सर वागी प्रेस पूर्ण प्रश्नाती के
वार्ट को यह दिखालर दौटा दिया गया है कि उसत अभिदृत्य मोगू कित कर्य असी-मुल्त मोगू फार हो मागति है कि उसत अभिदृत्य के स्थान के कि उसते असी-मुल्त मोगू फार हो मागति है का उसते वार्ट की तामील से उसने के लिए अपने आपको थिया रहा है। इसलिए इसके हात उदायोगणा की जाती है कि रूप एकआईआई मं 1. 16/2021 दिनांक 07.0.2021 अस्पतील प्राप्त 25/54/59 आमर्च एकट, धाना थेन नगर, विल्ली के उसत्त अभिदृत्य मोगू ने असी को जाती है कि यह इस न्यायालक के नगत (या में राज्य असी-मुल्त असी की जाती है कि यह इस न्यायालक के नगत (या में राज्य पहले हाजिय है।

DP/11390/RD/2025 (Court Matter)

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Corporate Uttest, 7th Foor, Corporate Offee Isseet, Ambience Initit, N.H.49, Graphia (E-mail: Initio) saints, on Website, were seleit/Ainane, com CINL, 128 221, 1991 PL.004449 Telsphone No. - D1-23152801724-2719000 Par. No. - D1-231504/1 D124-2719100 NOTICE OF 3344 ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

OFFICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATIC leades in rendry gives that.

The 33rd Annual General Reelling (AGE/) of the Sarrik Finance is Industria Limited ["Inc Company"] will be lead on Medicededly, ARM Septimetre. 2023: Facility for Insuch the ordinary and approach business, se set exist in the Notice Incelling for Insuch the ordinary and approach business, se set exist in the Notice Incelling for Insuch the ordinary and SSER (Listing Obligations and Diologous 2025 and Patter Insured Shewards and SSER (Listing Obligations and Diologous Recultimentals (Regulations, 2015 read with McA General Circulates and SEI Christian Shazed by them in this egger, visition for Epishical Designation of Members at accommon resines. The Members can join and participate in the AGE mongal to Colling Reality only.

Members at a common venue. The Members can join and participates in the AG monogin UCCIANM footility only.

The Notice of the AGM, Amusi Report for the financial year 2004-25 including Additional Age of the AGM, Amusi Report for the financial steer medial 31st Memor 2003; ("Annual Report") has been east by e-mail on Memorey, first September, 200 to those Members whose email additional sease were registered with the Company and their expectate. Depositionly Fear Equals or Deposition 17st and the Company Register and Transfer Again, Insural Sentenber Private Introductional Sentenber Private International Sentenberg Private International Sentenbe

The instructions for judicing the ACM and examine of portroposts on the return and an advantage of the ACM and examine of portroposts in the return advantage or examine out to provide a statement using the ACM. Historice portroposts in the Notice of ACM. Historice participating through VCCANN shall counted for purpose of necketaing the quantum under section 102 of the Companies Act, 2610.

a) The remote e-Voting shall commence on Sunday, 21st September, 2025 at 9.0 a.m. IST.

the remote e-Voting shall end on Tuesday, 23rd September, 2025 at 5:00 p.m. IS

a.m. 15T.

In the control of the con